

## अंडमान में केले की एक और नई प्रजाति पाई गई

### चर्चा में क्यों?

वनस्पतविज्ञानियों द्वारा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में एक बार फिर से केले की एक नई प्रजाति की खोज की गई है। हालाँकि, ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है इस क्षेत्र में केले की कोई विशेष प्रकार की प्रजाति खोजी गई है। इस क्षेत्र विशेष में केले की ऐसी बहुत सी प्रजातियाँ पाई जाती हैं; जिनके वषिय में अभी तक हमें कोई जानकारी ही प्राप्त नहीं है। इसका सबसे अहम कारण यह है कि यह द्वीप समूह एक जैव विविधता हॉटस्पॉट है, जहाँ जंगली केले की सात अलग-अलग प्रजातियाँ खोजी जा चुकी हैं।

### केले की इस नई प्रजाति का नाम क्या है ?

- हाल ही में नॉर्डिक जर्नल ऑफ बॉटनी (Nordic Journal of Botany) में प्रकाशित एक नवीनतम खोज में 'मूसा परमजीतना' (Musa paramjitiana) नामक जंगली केले की एक नई प्रजाति के वषिय में जानकारी दी गई है।
- इस प्रजाति को यह नाम भारत के बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया (Botanical Survey of India - BSI) के निदेशक परमजीत सहि के सम्मान में दिया गया है।

### कहाँ खोजी गई?

- जंगली केले की यह नई प्रजाति भानव नविस स्थान से 6 किलोमीटर दूर उत्तरी अंडमान के कृष्णापुरी वन (Krishnapuri forest) में पाई गई।

### वैशिष्ट्य क्या-क्या हैं?

- इस प्रजाति के पौधे नौ मीटर की ऊँचाई तक बढ़ सकते हैं।
- इसका फल स्वाद में खट्टा-मीठा होता है। यह फल स्थानीय जनजातियों के आहार का हिस्सा है।
- यह देखने में नाव के आकार का होता है तथा इसमें बहुत से बल्ब के आकार वाले बीज भी मौजूद होते हैं।
- उल्लेखनीय है कि इस प्रजाति की संरक्षण स्थिति को IUCN की रेड लिस्ट के आधार पर 'गंभीर रूप से लुप्तप्राय' घोषित किया गया है क्योंकि अभी तक इस प्रजाति को 6 से 18 पौधों में एक झुंड के रूप में इस द्वीप समूह पर केवल दो स्थानों पर ही देखा गया है।
- इसके अतिरिक्त यह प्रजाति फल के रूप में भी और बीज के रूप में भी जातीय-औषधीय (ethno-medicinal) महत्त्व रखती है
- इतना ही नहीं इस पौधे की छद्म स्टेम (Pseudo-stem) और पत्तों का भी यहाँ के धार्मिक और सांस्कृतिक समारोहों के दौरान उपयोग किया जाता है।

### इसके जर्मप्लाज़्म का संरक्षण करना

- वनस्पतविज्ञानियों के अनुसार, इस प्रकार की खोज केले की फसल में सुधार करने के संदर्भ में पौधों के प्रजनकों और बागवानी वैशिष्ट्यों के लिये एक महत्त्वपूर्ण अवसर उपलब्ध कराती है।
- अतः जंगली केले की सभी प्रकार की प्रजातियों के जर्मप्लाज़्म को तत्काल आधार पर संरक्षित किये जाने की आवश्यकता है, क्योंकि इनमें से अधिकतर प्रजातियाँ बहुत छोटे-छोटे नविस स्थानों और वलिपुती के खतरे की स्थिति में पाई जाती हैं।
- ध्यातव्य है कि वर्ष 2014 में अंडमान द्वीप के उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में जंगली केले की एक अन्य प्रजाति 'मूसा इंडेंडेंसिस' (Musa indandamanensis) की खोज की गई थी।